

नवदुमिल  
(07-08-2015)

# गोली लगाने से पहले ही मर चुका था धर्मेंद्र!

पीएम में गिरते मौत से 10 घंटे पहले के डेढ़ दर्जिन चोट के निशान, पैर एवं कूल्हे पर मारपीट के कारण बने नीले निशान



मामला गरीब मजदूर धर्मेंद्र कुशवाह की मौत एन्काउंटर से पहले ही मर चुका था। शरीर पर चोट के जो निशान हैं, वह 10 से 12 घंटे पहले ही मारपीट के दौरान थर्ड डिग्री बर्दाश्त नहीं होना ही मौत का कारण हो सकता है। मृतक का पीएम करने वाले डॉक्टरों को ऐसे साक्ष्य मिले हैं। हालांकि यह खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। पीएम रिपोर्ट तैयार होने के लिए डॉक्टरों पर दबाव है, लेकिन निरंकुश मजदूर धर्मेंद्र कुशवाह के फोटोग्राफ सभी के पास होने पर ऐसा दावा नहीं है। बरखाय हेरद रिण्टा की गैंग को बस्ट करने के फेर में मारपीट के निशान भी आते-पते लगे हैं। धर्मेंद्र कुशवाह नामक शख्स को मारपीट के निशान भी आते-पते लगे हैं। धर्मेंद्र कुशवाह नामक शख्स को मारपीट के निशान भी आते-पते लगे हैं। धर्मेंद्र कुशवाह नामक शख्स को मारपीट के निशान भी आते-पते लगे हैं।

## 48 घंटे बाद भी नहीं ली पीएम रिपोर्ट

पीएम में सारी हकीकत सामने आ जाएगी यह सोच कर पुलिस अधिकारी सकते में हैं। यह भी पता है। यही वजह है कि पुलिस अब तक पीएम रिपोर्ट लेने नहीं पहुंची। जेएच प्रबंधन के अनुसार रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, जो पुलिस को उपलब्ध करा दी जाएगी।

## शरीर से नहीं निकला एक यूनिट ब्लड

आम तौर पर मुठभेड़ में घटनास्थल खून से लथपथ मिलता है, लेकिन इस मामले में घटनास्थल पर एक यूनिट ब्लड भी नहीं फैला था। डॉक्टरों के अनुसार जीवित व्यक्ति के गोली लगती है तो ज्यादा खून निकलता है, लेकिन मृत व्यक्ति को गोली मारी जाएगी तो नाममात्र का खून निकलेगा, क्योंकि मृत व्यक्ति के शरीर में खून का प्रवाह थम जाता है। साथ ही धर्मेंद्र के साथ की मारपीट से शरीर की ऊपरी परत पर आकर खून जम गया था, जिससे नीले रंग के निशान पड़ गए थे। इसी वजह से घटना स्थल पर ब्लड कम मिला।

पेज 1 का शेष...

# गोली लगाने से पहले मर चुका था धर्मेंद्र!

जेएच में तीन डॉक्टरों के फैसले ने शव का पीएम किया है और इसकी रिपोर्ट सभी की ली गई है। मृतक के अनुसार पीएम के दौरान ऐसे कई लक्षण मिले हैं, जिसमें गोली लगना मौत का कारण बनी वन लख। संभवतः धर्मेंद्र की मौत पहले हो गई थी और उसके बाद परिस्थितियां बदरने के लिए एन्काउंटर की रचना की गई। धर्मेंद्र के परिजनो का आरोप है कि पुलिस ने शनिवार को ही उसे गिरफ्तार कर लिया था और अब यह बात सच साबित होती दिख रही है। धर्मेंद्र के शरीर पर लगभग डेढ़ दर्जिन निशान-बिंदाइयां मिली हैं। धर्मेंद्र के शरीर पर लगभग डेढ़ दर्जिन निशान-बिंदाइयां मिली हैं। धर्मेंद्र के शरीर पर लगभग डेढ़ दर्जिन निशान-बिंदाइयां मिली हैं। धर्मेंद्र के शरीर पर लगभग डेढ़ दर्जिन निशान-बिंदाइयां मिली हैं।

## मुठभेड़ से उठते सवाल

- मृतक धर्मेंद्र के शरीर पर डेढ़ दर्जिन चोट के निशान कैसे आए?
- पुलिस ने एन्काउंटर किया है तो घुटने, कूल्हे पर खून के थक्के कैसे जमे?
- मृतक के गुमांगों पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं, वह कैसे आए?
- धर्मेंद्र के शरीर पर जो कपड़े थे, वह पूरी तरह साफ कैसे थे?
- धर्मेंद्र गवाह को मारने वाला था, तो क्या शक के आधार पर किसी को मारना उचित है।
- पुलिस को शक था तो धर्मेंद्र को गैंग के गुर्गों के साथ गिरफ्तार क्यों नहीं किया।

## इनका कहना है

पीएम रिपोर्ट तैयार हो गई है, इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। कल ही रिपोर्ट भंगवा ली जाएगी। जहां तक फर्जी एन्काउंटर की बात है तो हमारे पास मुठभेड़ होने के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। मृतक के शरीर पर जो निशान हैं, वह एन्काउंटर से पहले बर्दाश में हुई मारपीट के हो सकते हैं। इस संबंध में सभी जवाब पेश कर दिए जाएंगे। प्रतिभा मीथ्यू, एडिशनल एसपी, क्राइम ब्रांच

## इन डॉक्टरों ने किया पीएम

- डॉ. सार्थक जुगरान, विभागाध्यक्ष, फॉरेंसिक मेडिसिन
- डॉ. चन्द्रशेखर वाघमारे
- डॉ. वीएस तोमर

